



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 26

30 दिसम्बर 2011

संख्या 52

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(कोड़ ₹)

मद	2010	2011		घट-बढ़	
	24 दिसम्बर	16 दिसम्बर	23 दिसम्बर #	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
जारी नोट	8,98,189	10,17,991	10,12,937	-5,055	1,14,748
संचलन में नोट	8,98,172	10,17,979	10,12,921	-5,057	1,14,749
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	17	13	16	3	-1
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	1,06,190	100	100	—	-1,06,090
बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—
राज्य सरकार	41	42	42	—	1
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,18,753	3,49,659	4,07,866	58,206	89,113
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3,740	3,937	3,807	-130	67
अन्य बैंक	15,146	16,662	17,267	605	2,121
अन्य	11,699	10,528	11,637	1,109	-62
अन्य देयताएं	3,45,461	6,07,789	6,12,305	4,516	2,66,844
कुल देयताएं / आस्तियां	16,99,220	20,06,709	20,65,962	59,252	3,66,741
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	12,03,818	14,11,865	14,02,544	-9,321	1,98,726
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	1,01,857	1,46,289	1,46,289	—	44,432
रूपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	3,83,162	4,37,657	5,02,307	64,650	1,19,145
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	100	369	380	11	280
नाबाई	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4,296	3,828	7,519	3,691	3,223
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	30	—	—	—	-30
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	368	698	729	31	362
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	1,320	1,320	1,320	—	—
अन्य आस्तियां	4,270	4,683	4,874	191	604

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रूपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	23 दिसम्बर 2011 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2011 की समाप्ति पर		दिसम्बर 2010 की समाप्ति पर		वर्ष	
	कोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	कोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	कोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	कोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	कोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर
कुल भंडार	15,84,605	300,863	-8,992	-1,237	2,23,591	-3,955	2,52,251	3,529	2,48,393	5,832
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	14,00,541	265,656	-9,317	-1,312*	1,75,658	-8,674	2,00,464	-2,158	1,97,854	-249
(ख) स्वर्ण \$	1,46,289	28,041	—	—	43,717	5,069	45,603	5,571	44,432	5,917
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	23,448	4,448	4	9	3,047	-121	695	-630	640	-595
(घ) आइएएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	14,327	2,718	321	66	1,169	-229	5,489	746	5,467	759

- + आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किए गये ₹2,003 करोड़ / 380 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश को छोड़कर।
 * अमरीकी डॉलर के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।
 ** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित निधि की स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संयवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल की गई है।
 @ इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) और विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिनका आवंटन क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।
 \$ इसमें ₹31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	16 दिस. 2011 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		पखवाड़े में	वित्त वर्ष अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2010-2011	2011-2012	2010	2011
	1	2	3	4	5	6
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	72,245	861	1,569	-1,497	13,626	5,745
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	30,584	7,413	-3,040	860	11,668	1,266
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	10,025	15	1,125	2,901	1,540	2,922
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	56,72,592	-37,469	3,13,402	4,64,623	6,21,869	8,66,365
		(-0.7)	(7.0)	(8.9)	(14.9)	(18.0)
मांग	5,59,935	-12,583	-67,096	-81,770	52,997	-18,578
मीयादी	51,12,657	-24,886	3,80,498	5,46,393	5,68,872	8,84,943
उधार ⁽³⁾	1,70,209	877	19,873	38,868	10,293	46,058
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,60,013	-347	5,832	18,209	15,649	24,761
रिजर्व बैंक से उधार	3,828	1,555	4,179	-1,204	4,058	-393
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,86,863	2,080	30,482	37,354	81,941	49,413
पास में नकदी	37,203	456	4,140	6,858	4,626	7,486
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	3,49,659	1,624	26,342	30,496	77,315	41,927
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	58,263	689	-12,557	2,126	1,131	8,399
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	21,475	1,708	163	4,869	9,231	3,644
बैंकों को अग्रिम	6,533	319	-3,744	-6,036	4,070	385
अन्य आस्तियां	72,598	2,430	4,959	3,525	24,279	23,176
निवेश⁽⁵⁾	16,78,851	-64,862	60,791	1,77,232	96,004	2,33,308
		(-3.7)	(4.4)	(11.8)	(7.1)	(16.1)
सरकारी प्रतिभूतियां में	16,75,247	-62,989	62,387	1,78,099	98,399	2,34,465
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां में	3,605	-1,872	-1,596	-867	-2,392	-1,157
बैंक ऋण	42,66,983	31,562	3,99,781	3,24,900	7,02,290	6,22,414
		(0.7)	(12.3)	(8.2)	(23.9)	(17.1)
खाद्य ऋण	82,905	1,061	14,032	18,623	17,484	20,384
खाद्येतर ऋण	41,84,077	30,501	3,85,749	3,06,278	6,84,806	6,02,030
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	41,10,089	28,587	3,92,265	3,16,082	6,74,457	5,95,666
देशी बिल - खरीदे गए	14,414	-284	-128	970	887	2,528
भुनाए गए ⁽⁶⁾	82,419	724	4,636	2,552	16,020	15,564
विदेशी बिल - खरीदे गए	19,959	840	1,824	1,376	2,396	2,003
भुनाए गए	40,102	1,696	1,184	3,919	8,531	6,653
नकद-जमा अनुपात	6.82					
निवेश-जमा अनुपात	29.60					
ऋण-जमा अनुपात	75.22					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुकूपी मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एफ़िजम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2010	2011					
	17 दिसम्बर	11 नवम्बर	18 नवम्बर	25 नवम्बर	2 दिसम्बर	9 दिसम्बर	16 दिसम्बर
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आधार दर ⁽²⁾	7.60/8.50	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75
जमा दर ⁽³⁾	7.00 / 8.75	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) ⁽⁴⁾	6.73	8.60	8.57	8.67	8.54	8.58	8.66

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध बैंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन का 90-95 प्रतिशत भाग शामिल है। मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा-भारकित औसत है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

मद	2011-2012			2010-2011		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (2)-(1)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (5)-(4)
	2011			2010		
	25 मार्च	16 दिसम्बर		26 मार्च	17 दिसम्बर	
	1	2	3	4	5	6
1. बैंक ऋण	39,42,083	42,66,983	3,24,900 (8.2)	32,44,788	36,44,569	3,99,781 (12.3)
क. खाद्य ऋण	64,283	82,905	18,623	48,489	62,521	14,032
ख. खाद्येतर ऋण	38,77,800	41,84,077	3,06,278 (7.9)	31,96,299	35,82,048	3,85,749 (12.1)
2. निवेश	1,47,601	1,73,699	26,098	1,18,071	1,46,444	28,373
क. वाणिज्यिक पत्र	12,309	26,842	14,532	25,188	32,715	7,527
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	41,316	37,213	-4,103	30,106	35,496	5,389
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	8,965	7,670	-1,295	4,625	8,252	3,627
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	32,351	29,543	-2,808	25,481	27,244	1,762
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	93,975	1,09,644	15,669	62,777	78,233	15,457
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	27,946	33,086	5,140	22,710	23,764	1,054
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	66,029	76,558	10,528	40,067	54,470	14,403
3. कुल (1ख+2)	40,25,401	43,57,776	3,32,376 (8.3)	33,14,370	37,28,492	4,14,122 (12.5)
ज्ञापन मदें :						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	47,603	49,303	1,700	52,887	24,175	-28,712
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	31,296	36,009	4,712	32,597	29,141	-3,457
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	45,615	40,532	-5,083	30,902	31,375	473

टिप्पणी: 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें — हाज़िर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2011					वार्षिक वृद्धि (+) / ह्रास (-) (प्रतिशत)				
	19 दिस.	20 दिस.	21 दिस.	22 दिस.	23 दिस.	19 दिस.	20 दिस.	21 दिस.	22 दिस.	23 दिस.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	52.9575	53.0270	52.6750	52.7825	52.7220	—	-14.42	-14.08	-14.50	-14.61
यूरो	68.9065	68.9987	69.1277	68.8775	68.9048	—	-13.38	-13.77	-13.88	-14.20
फेडरॉ की सांकेतिक दरें (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी { खरीद	53.0100	53.0100	52.6700	52.7800	52.7100	—	-14.37	-14.10	-14.49	-14.60
डॉलर { बिक्री	53.0200	53.0200	52.6800	52.7900	52.7200	—	-14.37	-14.09	-14.49	-14.60
पौंड { खरीद	82.1025	82.2650	82.5225	82.7550	82.6850	—	-14.38	-14.75	-15.54	-16.06
स्टर्लिंग { बिक्री	82.1375	82.2975	82.5450	82.7850	82.7075	—	-14.38	-14.73	-15.53	-16.04
यूरो { खरीद	68.9175	68.9725	69.0975	68.9525	68.8825	—	-13.33	-13.75	-13.98	-14.20
{ बिक्री	68.9475	69.0100	69.1325	68.9750	68.9100	—	-13.35	-13.76	-13.95	-14.18
100 येन { खरीद	67.9700	67.9625	67.7075	67.6150	67.4725	—	-20.42	-20.15	-20.30	-19.76
{ बिक्री	68.0525	68.0450	67.7375	67.6700	67.5200	—	-20.45	-20.15	-20.32	-19.78
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमिया (वार्षिक प्रतिशत)										
1 - माह	8.84	9.05	8.88	9.21	8.65					
3 - माह	7.52	7.69	8.09	7.84	7.36					
6 - माह	6.61	6.77	7.02	6.95	6.45					

—पिछले वर्ष के तदनुसंगी दिन बाजार बंद।

टिप्पणी: 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		परवर्द्ध		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	16 दिस. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम ₃	64,99,548	70,51,044	-22,217	-0.3	4,48,596	8.0	5,51,496	8.5	8,05,981	15.4	9,99,717	16.5
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	9,14,197	9,88,658	16,199	1.7	1,10,987	14.5	74,461	8.1	1,40,234	19.0	1,10,178	12.5
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,17,660	6,39,029	-12,491	-1.9	-66,787	-9.3	-78,630	-11.0	63,429	10.8	-12,154	-1.9
(iii) बैंकों के पास मीमादी जमा	48,63,979	54,22,253	-24,417	-0.4	4,04,866	9.8	5,58,274	11.5	6,03,939	15.4	9,03,957	20.0
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,713	1,103	-1,509	-57.8	-471	-12.3	-2,609	-70.3	-1,621	-32.5	-2,264	-67.2
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	19,82,771	21,99,188	-32,447	-1.5	1,32,728	8.0	2,16,417	10.9	2,96,463	19.7	3,97,273	22.0
(क) रिजर्व बैंक	3,96,555	4,38,037	30,795		59,210		41,482		1,83,885		1,67,242	
(ख) अन्य बैंक	15,86,216	17,61,150	-63,242	-3.5	73,519	5.0	1,74,934	11.0	1,12,578	7.9	2,30,031	15.0
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	42,35,406	45,64,910	30,921	0.7	4,31,466	12.4	3,29,503	7.8	7,39,983	23.2	6,42,035	16.4
(क) रिजर्व बैंक	2,164	1,998	261	—	298	—	-166	—	-3,093	—	373	—
(ख) अन्य बैंक	42,33,242	45,62,911	30,660	0.7	4,31,168	12.4	3,29,669	7.8	7,43,076	23.4	6,41,663	16.4
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,93,327	15,99,554	14,777	0.9	89,787	7.0	2,06,227	14.8	29,788	2.2	2,28,299	16.6
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	12,724	13,312	—	—	984	8.7	587	4.6	1,335	12.2	1,058	8.6
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं	11,24,680	13,25,919	35,468	2.7	2,06,369	24.3	2,01,238	17.9	2,61,589	32.9	2,68,948	25.4
जिनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं	3,68,274	6,12,660	31,155	5.4	52,185	17.3	244,385	66.4	-30,184	-7.9	2,58,860	73.2

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	23 दिस. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	13,76,881	14,57,385	54,733	3.9	95,377	8.3	80,504	5.8	2,19,951	21.3	2,06,322	16.5
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	9,49,659	10,26,233	-5,057	-0.5	1,10,878	13.9	76,573	8.1	1,44,921	18.9	1,15,807	12.7
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	4,23,509	4,28,940	58,681	15.8	-14,660	-4.2	5,430	1.3	75,620	28.9	91,301	27.0
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	3,713	2,213	1,109	100.5	-840	-21.9	-1,500	-40.4	-589	-16.4	-786	-26.2
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	3,96,555	5,02,863	64,826		65,656		1,06,308		1,75,957		2,25,621	
	3,94,035	5,02,526	64,815		65,602		1,08,491		1,75,942		2,25,343	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से : बैंकों को (नाबार्ड सहित)	7,324	9,548	3,722		3,496		2,225		1,072		3,555	
	5,159	7,550	3,722		3,199		2,391		4,368		3,182	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,28,553	15,48,815	-9,321	-0.6	73,709	6.0	2,20,262	16.6	10,229	0.8	2,43,157	18.6
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	12,724	13,312	—	—	984	8.7	587	4.6	1,335	12.2	1,058	8.6
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयता	3,68,274	6,17,153	4,493	0.7	48,468	16.1	2,48,878	67.6	-31,358	-8.2	2,67,070	76.3

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(करोड़ ₹)

तारीख	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (5-10)	एमएसएफ	बकाया राशि
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19 दिसम्बर 2011	1	64	1,66,055	64	1,66,055	8.50	1	25	1	25	7.50	1,66,030	—	–1,66,030
20 दिसम्बर 2011	1	65	1,64,050	65	1,64,050	8.50	1	20	1	20	7.50	1,64,030	1,600	–1,65,630
21 दिसम्बर 2011	1	70	1,64,915	70	1,64,915	8.50	1	5	1	5	7.50	1,64,910	2,150	–1,67,060
22 दिसम्बर 2011	1	74	1,65,150	74	1,65,150	8.50	1	10	1	10	7.50	1,65,140	6,150	–1,71,290
23 दिसम्बर 2011	3	76	1,73,330	76	1,73,330	8.50	1	20	1	20	7.50	1,73,310	9,330	–1,82,640

एमएसएफ : सीमांत स्थायी सुविधा ।

‘—’ : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई/लागू नहीं

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (7+8+9)	भारित अभ्सत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
91-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
6 अप्रैल	8 अप्रैल	4,000	78	14,105	—	35	4,000	—	—	4,000	98.26	7.1443	69,845
6 जुलाई	8 जुलाई	7,000	94	27,621	250	29	7,000	250	—	7,250	98.00	8.1857	1,21,860
5 अक्तू.	7 अक्तू.	4,000	69	14,755	1,500	41	4,000	1,500	—	5,500	97.94	8.4364	1,14,719
21 दिस.	23 दिस.	4,000	108	16,730	2,291	12	4,000	2,291	—	6,291	97.96	8.3946	81,615
182-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
13 अप्रैल	15 अप्रैल	2,000	74	7,744	1,500	25	2,000	1,500	—	3,500	96.43	7.4462	24,501
6 जुलाई	8 जुलाई	3,000	75	7,178	—	44	3,000	—	—	3,000	96.04	8.2692	34,251
12 अक्तू.	14 अक्तू.	4,000	56	7,293	—	41	4,000	—	—	4,000	95.90	8.6177	42,100
21 दिस.	23 दिस.	4,000	80	11,395	—	3	4,000	—	—	4,000	96.05	8.2692	45,351
364-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
6 अप्रैल	8 अप्रैल	2,000	80	8,350	—	31	2,000	—	—	2,000	93.02	7.5476	42,456
13 जुलाई	15 जुलाई	3,000	107	13,141	—	20	3,000	—	—	3,000	92.41	8.2360	53,308
5 अक्तू.	7 अक्तू.	4,000	93	10,645	—	43	4,000	—	—	4,000	92.18	8.5185	65,161
14 दिस.	16 दिस.	4,000	82	12,925	—	18	4,000	—	—	4,000	92.45	8.2595	77,369

टिप्पणियाँ: 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फार्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है ।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है ।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(करोड़ ₹)

	दिनांक													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17 दिस.	18 दिस.	19 दिस.	20 दिस.	21 दिस.	22 दिस.	23 दिस.	24 दिस.	25 दिस.	26 दिस.	27 दिस.	28 दिस.	29 दिस.	30 दिस.
30 दिसम्बर 2011 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधी अपेक्षाएँ	3,64,166	3,64,166	3,64,166	3,64,166	3,64,166	3,64,166	3,64,166	3,64,166	3,64,166	3,64,166	3,64,166	3,64,166	3,64,166	3,64,166
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष	3,55,352	3,55,352	3,69,705	3,70,210	3,71,750	3,81,221	4,08,070							

टिप्पणी: ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संघीय आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं ।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #		पखवाड़े के दौरान जारी #		ब्याज दर (प्रतिशत) @
	1	2	3	4	
14 जनवरी 2011		3,71,881		44,019	7.18-9.82
8 अप्रैल 2011		4,44,525		61,292	8.00-11.70
15 जुलाई 2011		4,05,973		28,431	8.20-10.10
7 अक्टूबर 2011		3,87,313		41,694	8.80-9.85
21 अक्टूबर 2011		3,85,936		11,635	9.00-9.90
4 नवम्बर 2011		3,82,201		6,037	9.20-9.99

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष ।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि		पखवाड़े के दौरान सूचित		ब्याज दर (प्रतिशत) @	
	1		2		3	
15 जनवरी 2011	98,913		22,908		6.60-11.95	
15 अप्रैल 2011	1,05,518		30,840		7.15-12.30	
15 जुलाई 2011	1,28,347		29,818		8.10-13.25	
15 अक्टूबर 2011	1,66,462		29,243		8.75-13.50	
31 अक्टूबर 2011	1,68,769		16,179		7.75-14.50	
15 नवम्बर 2011	1,76,069		24,944		8.78-13.55	

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05=100)

मद	भार	2010	2011		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		11 दिसम्बर	15 अक्टूबर*	10 दिसम्बर #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
		1	2	3	4	5	6	7
सभी पण्य @	100.00	..	..	..	..	..	..	..
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	190.5	204.1	197.7	-0.2	-2.1	4.9	3.8
(i) फल और सब्जियां	3.84	189.6	198.3	170.7	-2.3	-13.0	2.3	-10.0
ईंधन और विद्युत	14.91	149.6	170.1	172.4	—	0.5	9.2	15.2
विनिर्मित उत्पाद @	64.97	..	..	..	..	..	..	..
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	..	..	..	..	..	..	..
(ii) खाद्य तेल	3.04	..	..	..	..	..	..	..
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	..	..	..	..	..	..	..
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	..	..	..	..	..	..	..

* अद्यतन उपलब्ध अंतिम आंकड़े।

प्रोट : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2010	2011				
	23 दिसम्बर	19 दिसम्बर	20 दिसम्बर	21 दिसम्बर	22 दिसम्बर	23 दिसम्बर
	1	2	3	4	5	6
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	19982.88	15379.34	15175.08	15685.21	15813.36	15738.70
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	5980.00	4613.10	4544.20	4693.15	4733.85	4714.00

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह						
	11 नवम्बर 2011	18 नवम्बर 2011	25 नवम्बर 2011	2 दिसम्बर 2011	9 दिसम्बर 2011	16 दिसम्बर 2011	23 दिसम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	8,613	8,551	9,495	6,996	7,990	10,154	16,326
ख) दिए गए ऋण	9,585	9,003	10,613	7,848	9,086	11,168	17,612
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	972	452	1,118	852	1,096	1,014	1,328
ख) दिए गए ऋण	—	—	—	—	—	—	42
3. कुल							
क) लिए गए उधार	9,585	9,003	10,613	7,848	9,086	11,168	17,654
ख) दिए गए ऋण	9,585	9,003	10,613	7,848	9,086	11,168	17,654

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)@

(करोड़ ₹)

मद	समाप्त सप्ताह					
	18 नवम्बर 2011	25 नवम्बर 2011	2 दिसम्बर 2011	9 दिसम्बर 2011	16 दिसम्बर 2011	23 दिसम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,31,544	85,526	1,50,152	1,62,719	2,09,768	2,59,005
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,631	2,163	1,285	4,286	4,253	6,845
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	3,753	2,805	8,241	6,470	8,942	4,880
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	2,940	2,656	4,759	7,817	8,033	3,392
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	4,748	904	11,027	10,524	5,247	7,261
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	133	11,073	5,928	9,153	—	9,280

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भार.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिक्						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई			एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खरीद												
5 दिसम्बर 2011	2,782	1,052	827	172	178	131	7,273	7,212	854	1,863	2,098	84
6 दिसम्बर 2011 +												
7 दिसम्बर 2011	3,927	1,520	1,063	365	210	204	7,951	7,245	543	2,512	2,213	81
8 दिसम्बर 2011	2,251	1,470	940	211	238	258	8,261	6,906	486	2,554	1,337	103
9 दिसम्बर 2011	2,569	1,803	1,027	194	509	476	8,755	7,034	624	2,866	1,384	58
बिक्री												
5 दिसम्बर 2011	2,492	1,647	673	164	123	219	6,806	7,956	1,360	1,865	2,206	73
6 दिसम्बर 2011 +												
7 दिसम्बर 2011	2,758	2,764	704	368	213	196	7,745	8,272	912	2,449	2,129	81
8 दिसम्बर 2011	2,324	2,326	770	236	235	255	7,262	7,931	809	2,527	1,335	98
9 दिसम्बर 2011	2,845	2,060	1,112	162	513	482	8,164	7,959	854	2,889	1,533	43

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

+ : बाजार बंद।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिक् और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह					
	18 नवम्बर 2011	25 नवम्बर 2011	2 दिसम्बर 2011	9 दिसम्बर 2011	16 दिसम्बर 2011	23 दिसम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6
राशि	599.42	1,223.53	1,157.43	1,134.52	1,322.87	802.06

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ ₹)

धारक	23 दिसम्बर 2011					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल					सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)	कुल (1+2+3+4)		
	1	2	3	4	5	6	7
बैंक	—	21,357	14,744	22,540	58,640	-2,204	15,222
प्राथमिक व्यापारी *	—	26,700	21,702	35,643	84,045	-1,029	27,448
राज्य सरकारें	82,378	23,558	400	419	1,06,754	10,958	-4,734
अन्य	2,182	10,001	8,506	18,768	39,457	1,126	12,654

* बैंक प्राथमिक व्यापारी सहित

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार — 2011-2012

(अंकित मूल्य करोड़ ₹ में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2011-2012 (23 दिसम्बर 2011 तक)	2010-2011 (24 दिसम्बर 2010 तक)	2010-2011	2011-2012 (23 दिसम्बर 2011 तक)	2010-2011 (24 दिसम्बर 2010 तक)	2010-2011
	1	2	3	4	5	6
1. कुल	3,67,000	3,78,000	4,37,000	2,93,419	2,92,342	3,25,414
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन* : बिक्री खरीद	5,902 39,516	5,644 43,870	11,575 78,799			

* भारिबैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	16 दिसम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह			23 दिसम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (%वार्षिक) सकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (%वार्षिक) सकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2011-12	—	—	—	—	—	—
2012-13	279	8.4612	8.5600	1,688	8.3761	8.7375
2013-14	50	8.2580	8.2580	—	—	—
2014-15	165	8.2357	8.4190	102	8.0372	8.2500
2015-16	106	8.2510	8.4103	145	8.1085	8.3053
2016-17	756	8.3411	8.4726	1,269	8.2252	8.4001
2017-18	675	8.3529	8.5508	239	8.3134	8.4234
2018-19	6,211	8.3744	8.5008	13,836	8.2925	8.4915
2019-20	20	8.5500	8.5500	25	8.4000	8.4367
2020-21	2,442	9.1984	10.0309	2,554	9.2597	9.8031
2021 से आगे	94,180	8.4041	8.8607	1,09,642	8.2682	8.8019
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	2,127	8.5485	9.0568	3,422	8.6010	8.9058
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	213	8.4496	8.7000	606	8.3000	8.8009
ख) 15 - 91 दिन	4,786	8.2500	8.7504	3,246	8.1978	9.0000
ग) 92 - 182 दिन	3,893	8.2500	8.5003	1,336	8.2200	8.4002
घ) 183 - 364 दिन	2,218	8.2175	8.4505	2,580	8.1000	8.3001
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	—			—		
खरीद	—			9,280 +		
III. रिपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दरें (%वार्षिक) न्यूनतम	दरें (%वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (%वार्षिक) न्यूनतम	दरें (%वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	41,772	6.50 (1)	9.65 (15)	37,807	7.50 (1)	9.90 (15)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	297	8.55 (1)	8.55 (1)	535	8.70 (1)	9.26 (3)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	7,546	7.50 (1)	9.00 (3)	3,552	8.65 (1)	9.40 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	9,213	7.50 (1)	9.00 (3)	4,937	8.70 (1)	9.41 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,788	8.00 (1)	9.00 (3)	3,561	8.65 (1)	9.41 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रिपो * ^	5,06,530	8.50	8.50	8,33,500	8.50	8.50
: रिवर्स रिपो !	775	7.50	7.50	80	7.50	7.50

* भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (%वार्षिक) गैर मानक समूह (₹5 करोड़ से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बॉण्ड (तेल बॉण्ड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹800 और ₹2,000

तथा विदेश में क्रमशः \$0 अमरीकी \$ और \$125 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ रॉय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 द्वारा प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ रॉय।